

विद्याभवन , बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय  
रूपम कुमारी , वर्ग-दशम् , विषय-हिन्दी  
दिनांक- २८/५/२०

॥अध्ययन- -सामग्री ॥

प्यारे बच्चों ,

यह सौ फीसदी सही है – आप जो करना  
चाहते हैं, उसे करने की गुंजाइश हमेशा बनी  
रहती है । सिर्फ आपमें दृढ इच्छा -शक्ति  
होनी चाहिए ।

रोचक तथ्य

- : 27 मई 1928 ई० को प्रसिद्ध  
इतिहासकार विपिन चंद्र का जन्म हुआ  
था ।

- 27 मई 1954 हिन्दी के कवि, प्रकार एवं पत्रकारिता के प्राध्यापक हेमंत जोशी का जन्म हुआ था ।
- 27 मई 1962 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ था ।
- 27 मई 1964 को भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का निधन हुआ ।

वार्तालाप: 'माता का अँचल' कहानी को समाप्त कर लिया है, आज उसी पाठ्य- प्रश्नावली के साथ उपस्थित हूँ ।

प्रश्न -अभ्यास :

- प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था , फिर भी विपदा के समय व पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है ।आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है?
- 
- आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर से सिसकना क्यों भूल जाता है ?
- आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते - ,खाते समय जिस प्रकार की तुकबंदी करते हैं आपको यदि अपने खेलो आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखें ।

- भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है ?
- पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो ।
- उपन्यास के अंश में तीस के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है । आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? ।
- 
- **धन्यवाद !**  
फिर कल भेंट होगी ....  